



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]
No. 20]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, जनवरी 15, 2009/पौष 25, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2009/PAUSA 25, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2009

सं. 02/2009-सेवा कर

सा.का.नि. 26(अ).—वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 86 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड सं. सा.का.नि. 353(अ), दिनांक 12 मई, 2007 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 18/2007-सेवा कर में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

(i) सारणी में क्रम सं. 25 से संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र. सं.	समितियाँ	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
25.	(1) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई-I (2) सेवा कर, महानिदेशक, मुम्बई	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त बृहत करदाता इकाई मुम्बई।

(ii) सारणी में क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र. सं.	समितियाँ	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
26.	(1) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली (2) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चण्डीगढ़	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त बृहत करदाता इकाई दिल्ली।

(iii) सारणी के बाद स्पष्टीकरण में "अधिसूचना सं. 17/2007-सेवा कर, दिनांक 12 मई, 2007 के तहत अधिसूचित सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"और महानिदेशक (सेवा कर) अधिसूचना सं. 46/98-एसटीजीएसआर (59अ), दिनांक 28 जनवरी, 1998।"

[फा. सं. 275/100/2006-के.उ.शु. 8क]

मनप्रीत आर्य, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना सं. 18/2007-सेवा कर, दिनांक 12 मई, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 12 मई, 2007 के सा.का.नि. 353(अ), के तहत प्रकाशित की गई और निम्नलिखित संख्या द्वारा संशोधित की गई :—

(1) सा.का.नि. 49(अ), के तहत दिनांक 18 जनवरी, 2008 के शुद्धि पत्र के तहत 1/2008-सेवा कर के रूप में पुनः संख्याकित सा.का.नि. 38(अ) के तहत दिनांक 18 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 46/2008-सेवा कर द्वारा ।

(2) सा.का.नि. 393(अ) के तहत दिनांक 21 मई, 2008 की अधिसूचना सं. 25/2008-सेवा कर द्वारा ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2009

No. 02/2009-Service Tax

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of Section 86 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Board of Excise and Customs makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance Department of Revenue, No. 18/2007-Service Tax published *vide* number G.S.R. 353(E), dated the 12th May, 2007, namely :—

(i) in the Table, for the entries relating to Sl. No. 25, the following shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Committees	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
25.	(1) Chief Commissioner of Central Excise Mumbai-I (2) Director General of Service Tax, Mumbai.	Commissioner of Central Excise and Service Tax, Large Tax Payers Unit, Mumbai.

(ii) in the Table, after Sl. No. 25 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Committees	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
26.	(1) Chief Commissioner of Central Excise, Delhi (2) Chief Commissioner of Central Excise, Chandigarh.	Commissioner of Central Excise and Service Tax, Large Tax Payers Unit, Delhi.

(iii) After the table, in the Explanation, after the words and figures “Chief Commissioner of Customs notified *vide* Notification No. 17/2007-Service Tax, dated 12th May, 2007” the following shall be inserted, namely :—

“and the Director General (Service Tax) notified *vide* Notification No. 46/98-Service Tax, dated 28th January, 1998.”

[F. No. 275/100/2006-CX. 8A]

MANPREET ARYA, Under Secy.

Note :— The principal Notification No. 18/2007-Service Tax, dated the 12th May, 2007 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 353(E), dated the 12th May, 2007, and was amended by following number :—

(1) Notification No. 46/2008-Service Tax, dated the 18th January, 2008 *vide* No. G.S.R. 38(E), renumbered as 1/2008-Service Tax *vide* Corrigendum dated the 18th January, 2008 *vide* number G.S.R. 49(E).

(2) Notification No. 25/2008-Service Tax, dated the 21st May, 2008 *vide* number G.S.R. 393(E).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2009

सं. 03/2009-सेवा कर

सा.का.नि. 27(अ).—वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 86 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड सं. सा.का.नि. 354(अ), दिनांक 12 मई, 2007 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 19/2007-सेवा कर में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

सारणी में क्रम सं. 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

क्र. सं.	समितियाँ	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
1	2	3
56.	(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त, वृहत कर दाता इकाई, दिल्ली (2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त, दिल्ली III	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) वृहत कर दाता इकाई, दिल्ली

[फा. सं. 275/100/2006-के.उ.शु. 8 क]

मनप्रीत आर्य, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 19/2007-सेवा कर, दिनांक 12 मई, 2007, को सं. सा.का.नि. 354(अ) दिनांक 12 मई, 2007 के तहत प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्या द्वारा संशोधित की गयी थी :-

- (1) संख्या सा.का.नि. 501(अ) के तहत अधिसूचना संख्या 37/2007-सेवा कर दिनांक 24 जुलाई, 2007, द्वारा ।
- (2) सा.का.नि. 780(अ) के तहत अधिसूचना सं. 44/2007-सेवा कर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 द्वारा ।
- (3) सा.का.नि. 38 (अ) के तहत अधिसूचना सं. 47/2008-सेवा कर, दिनांक 18 जनवरी, 2008 द्वारा जिसे सा.का.नि. संख्या 50 (अ) के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2008 के शुद्धिपत्र द्वारा 2/2008 सेवा कर के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
- (4) सा.का.नि. 394 (अ) के तहत अधिसूचना सं. 26/2008-सेवा कर, दिनांक 21 मई, 2008 द्वारा ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2009

No. 3/2009-Service Tax

G.S.R. 27(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of Section 86 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Board of Excise and Customs makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 19/2007-Service Tax published *vide* number G.S.R. 354(E), dated the 12th May, 2007, namely :—

in the Table, after Sl. No. 55, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Committees	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
56.	(1) Commissioner of Central Excise and Service Tax, Large Tax Payers Unit, Delhi (2) Commissioner of Central Excise, Delhi III.	Commissioner of Central Excise (Appeals), Large Tax Payers Unit, Delhi.

[F. No. 275/100/2006-CX. 8A]

MANPREET ARYA, Under Secy

Note:—The principal notification no. 19/2007-Tax, dated the 12th May, 2007 was published *vide* number G.S.R. 354(E), dated the 12th May, 2007 and was subsequently amended by following number:

- (1) Notification No.37/2007-Service Tax, dated the 24th July, 2007 *vide* number G.S.R. 501(E).
- (2) Notification No. 44/2007-Service Tax, dated the 19th December, 2007 *vide* number G.S.R. 780(E).
- (3) Notification No. 47/2008-Service Tax, dated the 18th January, 2008 *vide* number G.S.R. 38(E) renumbered as 2/2008-Service Tax *vide* corrigendum dated 23rd January, 2008 *vide* G.S.R. No 50 (E).
- (4) Notification No. 26/2008-Service tax, dated the 21st May, 2008 *vide* number G.S.R. 394 (E).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2009

सं. 4/2009-सेवा कर

सा.का.नि. 28(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 86 की उप-धारा (1क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 18/2007-सेवा कर, दिनांक 12 मई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

- “21. (1) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शिलांग डिब्रूगढ़,
(2) मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता शिलांग
गुवाहाटी”

[फा. सं. 275/100/2006-के.उ.शु. 8 क]

मनप्रीत आर्य, अवर सचिव

टिप्पणी:—मूल अधिसूचना सं. 18/2007-सेवा कर, दिनांक 12 मई, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 353(अ), दिनांक 12 मई, 2007 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसमें सं. सा.का.नि. 38(अ) के तहत अधिसूचना सं. 46/2008-सेवा कर द्वारा संशोधन किया गया था जिसे सं. सा.का.नि. 49 (अ) के तहत दिनांक 18 जनवरी, 2008 के शुद्धिपत्र द्वारा और सं. सा.का.नि. 393 (अ) के तहत अधिसूचना सं. 25/2008-सेवाकर दिनांक 21 मई, 2008 के द्वारा 1/2008-सेवा कर के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2009

No. 4/2009-Service Tax

G.S.R. 28(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of Section 86 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Board hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No.18/2007-Service Tax, dated the 12th May, 2007, namely :—

in the said notification, in the Table, for serial number 21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

“21	(1) Chief Commissioner of Central Excise, Shillong (2) Chief Commissioner of Central Excise, Kolkata	Dibrugarh Shillong Guwahati”
-----	---	------------------------------------

[F.No. 275/100/2006-CX. 8A]

MANPREET ARYA, Under Secy

Note:—The principal Notification Number 18/2007-Service Tax, dated the 12th May, 2007 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 353(E), dated the 12th May, 2007, and was amended vide notification number 46/2008- Service Tax, dated the 18th January, 2008 vide number G.S.R. 38(E) renumbered as 1/2008- Service Tax vide Corrigendum dated the 18th January, 2008 vide number G.S.R. 49(E) and vide notification number 25/2008- Service Tax, dated the 21st May, 2008 vide number G.S.R. 393 (E),

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2009

सं. 5/2009-सेवा कर

सा.का.नि. 29(अ).—वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 86 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 19/2007-सेवा कर, दिनांक 12 मई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, शिलांग
के क्षेत्राधिकार के लिए
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, शिलांग और
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, डिब्रूगढ़
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, डिब्रूगढ़
के क्षेत्राधिकार के लिए
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, डिब्रूगढ़
और
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, शिलांग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गुवाहाटी
के क्षेत्राधिकार के लिए

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गुवाहाटी
और
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, शिलांग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
(अपील), गुवाहाटी।"

[फा. सं. 275/100/2006-के.उ.शु. 8 क]

मनप्रीत आर्य, अवर सचिव

टिप्पणी:—मूल अधिसूचना सं. 19/2007-सेवा कर, दिनांक 12 मई, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 354 (अ), दिनांक 12 मई, 2007, के तहत प्रकाशित की गई थी और सं. सा.का.नि. 501(अ) के तहत, दिनांक 24 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 37/2007-सेवा कर, सं. सा.का.नि. 780(अ) के तहत दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. 44/2007-सेवा कर, सं. सा.का.नि. 50 (अ) के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2008 के शुद्धिपत्र के तहत 2/2008-सेवा कर के रूप में पुनः संख्यांकित सं. सा.का.नि. 39(अ) के तहत दिनांक 18 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 47/2008-सेवा कर और सं. सा.का.नि. 394(अ) के तहत, दिनांक 21 मई, 2008 की अधिसूचना सं. 26/2008-सेवा कर के तहत संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2009

No. 5/2009-Service Tax

G.S.R. 29(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of Section 86 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Board hereby further makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No.19/2007-Service Tax, dated the 12th May, 2007, namely:—

in the said notification, in the Table, for serial number 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

"For the jurisdiction of Central Excise
Commissionerate, Shillong
Commissioner of Central Excise, Shillong
and
Commissioner of Central Excise, Dibrugarh
For the jurisdiction of Central Excise Commissionerate,
Dibrugarh
Commissioner of Central Excise, Dibrugarh and
Commissioner of Central Excise, Shillong
For the jurisdiction of Central Excise
Commissionerate, Guwahati
Commissioner of Central Excise, Guwahati and
Commissioner of Central Excise, Shillong

Commissioner of Central Excise (Appeals),
Guwahati."

[F.No.275/100/2006-CX.8A]

MANPREET ARYA, Under Secy.

Note:—The principal Notification No.19/2007-Service Tax, dated the 12th May, 2007 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 354(E), dated the 12th May, 2007, and was amended *vide* notification number 37/2007-Service Tax, dated the 24th July, 2007 *vide* number G.S.R. 501(E) and *vide* notification number 44/2007-Service Tax, dated the 19th December, 2007 *vide* number G.S.R. 780(E) and *vide* notification number 47/2008-Service Tax, dated the 18th January, 2008 *vide* G.S.R. No. 39(E) renumbered as 2/2008-Service Tax *vide* Corrigendum dated 23rd January, 2008 *vide* G.S.R. No. 50(E) and *vide* notification number 26/2008-Service Tax, dated the 21st May, 2008 *vide* G.S.R. No. 394 (E)